



**राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक**

साआधिकार प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 5, मंगलवार, शाके 1941 अगस्त 27, 2019

Bhadra 5, Tuesday, Saka 1941—August 27, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur August 14, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/ 7407 :-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal officer Municipal Council Makrana has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Council Makrana. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal officer.

**By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Governement**

कार्यालय नगर परिषद् मकराना

प्रारूप "क"

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद् मकराना के आगामी चुनाव हेतू पुनर्गठित वार्डों के सीमांकन के प्रस्ताव निम्नानुसार तैयार किये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

| नवगठित वार्डों के सीमांकन का विवरण | | |
|---|---------------------|--|
| क्रम संख्या | वार्ड संख्या | |
| 1 | 1 | बादीन जी के बाडे से पश्चिम में चलकर उत्तर के मकान लेते हुए मोहम्मदिया मस्जिद की बस्ती को सम्मिलित करते हुए गुणावती रोड पर आकर पश्चिम में चलकर उत्तर के मकान लेते हुए प्यार जी राठौड़ का गोदाम के पास खानों पर कच्चे रास्ते पर चलकर उल्लोड़ी खानों पर आकर रेल्वे कोसिंग बोरावड फाटक पर आकर पश्चिम में चलकर दोनों साईड के मकान बालाजी कॉलोनी, झांवर कॉलोनी को सम्मिलित करते हुए झांवर कॉलोनी में पूर्व में चलकर रेल्वे लाईन पर आकर पूर्व में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए बादीन जी के बाडे तक इसके मध्य का सम्पूर्ण भाग। |
| 2 | 2 | गुणावती तालाब से पश्चिम की ओर चलकर उत्तर की आबादी लेते रेल्वे लाईन तक से चुंगी नाका नम्बर 05 पर आकर उत्तर के ओर कच्चे रास्ते पर आकर गुलाबी खानों को सम्मिलित करते चुंगी चोकी नम्बर 06 आकर उत्तर में चलकर पूर्व के खानों को सम्मिलित करते हुए रोडी मशीन पर आकर पूर्व में खानों के रास्ते पर चलकर रज्जाक जी के भट्टे पर आकर भट्टे से पूर्व में चलकर दक्षिण के मकानात सोलंकी बस्ती लेते हुए चार खम्बे पर आकर दक्षिण में चलते हुए पश्चिम की आबादी लेते हुए सांसी बस्ती लेते हुए हनुमान |

| | | |
|---|---|--|
| | | बन्जारा के मकान के सामने के कुन्ट ओर चलकर उत्तर की आबादी लेते हुए फरीद गजधर की कुन्ट से चलकर घाटी चौराह गुणावती रोड पर आकर दक्षिण की ओर चलकर पश्चिम के मकानात लेते हुये बन्ने सिंह का मकान से दक्षिण की ओर चलते पश्चिम की आबादी सम्मिलित करते हुये बाजार से होते गुणावती तालाब तक। |
| 3 | 3 | गुणावती तालाब से पूर्व चलकर उत्तर के मकान लेते हुए के मकान रामूराम मेघवाल के तक मकान से उत्तर में चकर पश्चिम के मकान लेते हुए रा.उ.प्रा.वि. पर आकर पूर्व में गली में चलकर उत्तर मकान लेते हुए राजपूत मुक्तीधाम के सामने से हीरालाल जाट के मकान से पश्चिम की गली में चलकर मेघवाल बस्ती लेते हुए शंकर लाल नारनोलिया लेते हुए प्रभु जी बस्ती के मकान पर आकर उत्तर में चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए छठ तक छठ से पश्चिम में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए जीना साहब की कम्पनी तक कम्पनी से दक्षिण में मैन गुणावती रोड पर चलकर पूर्व के मकान पूर्ण मार्ग लेते हुए मिठू हरिजन के मकान तक इसके मध्य का सम्पूर्ण भाग। |
| 4 | 4 | गुली दादी की ढाणी को सम्मिलित लेते हुए उत्तर में चलकर रामदीन जी गुर्जर के मकान से भैवरलाल टेलर के मकान से पश्चिम के मकान लेते हुए चैनाराम मेघवाल के मकान से दक्षिण की तरफ दोनो साईड के मकान लेते हुए भैवरलाल रेगर के मकान से पश्चिम की तरफ हेमराज तालापा के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए भैवर सिंह जी शेखावत के मकान से वेभव कुमार वकील के मकान पश्चिम की तरह चलते हुए बंशी जी शर्मा के मकान होते हुए मरुधर स्कूल से पश्चिम की तरह चलते हुए हाथी सिंह जी मकान से दक्षिण की तरफ चलते हुए मानसिंह जी पेलेस से गुली दादी की ढाणी तक इसके मध्य का सम्पूर्ण भाग। |
| 5 | 5 | गोपाल जी खटीक के मकान की कुन्ट से पश्चिम में चलकर उत्तर के मकान लेते हुए मंगलाराम मेघवाल के मकान से उत्तर में चलकर पूर्व के मकान लेते हुए सेटू राजोरा के मकान की कुन्ट से पश्चिम में चलकर दक्षिण की बस्ती को सम्मिलित करते हुए श्रवण जी मेघवाल के मकान से दक्षिण में चलकर पूर्व के मकान लेते हुए छोटू जी कटारिया के मकान की कुन्ट से पूर्व में चलकर बंशी जी रेण के मकान से पश्चिम में चलकर उत्तर के मकान लेते हुए छोटू जी कटारिया के मकान से पश्चिम में चलकर जगनाथ जी के मकान से पश्चिम में चलकर भैवर सिंह के तक पूर्व में चलकर जगनाथ जी के मकान से उत्तर में चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए भैवर लाल जी के मकान की कुन्ट से चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए रामचन्द्र जी मेघवाल मकान की कुन्ट से दक्षिण में चलकर पूर्व के मकान लेते हुए शिव मन्दिर से पूर्व में चलकर गोकुल जी इन्द्रलिया मकान लेते हुए प्रभु जी खत्ती मकान से पूर्व की बस्ती लेते हुए शिव चौक से सरकारी हॉस्पीटल से पश्चिम में चलकर पुराना बस स्टैण्ड गुणावती से उत्तर में चलकर पूर्व की बस्ती लेते हुए घाटी चौराह से पूर्व में चलकर दक्षिण की बस्ती को सम्मिलित करते हुए मोड़ी मस्जिद की कुन्ट से दक्षिण में चलकर दोनो तरफ की बस्ती लेते हुए सरकारी हॉस्पीटल की कुन्ट से पूर्व में चलकर टॉवर से दक्षिण में चलकर बुधाराम जी के मकान से पश्चिम में चलकर दोनो तरफ की बस्ती को सम्मिलित करते हुए छोटू राम सेलवाड के मकान से दक्षिण में चलकर दोनो तरफ की बस्ती सम्मिलित करते हुए गोपाल जी खटीक के मकान तक। |

| | | |
|----|----|---|
| 6 | 6 | घाटी चौराह से दक्षिण में चलकर पूर्व के मकानात लेते हुये बस स्टैण्ड से पूर्व की तरफ मुड़कर कच्चे रास्ते से उत्तर की तरफ मुड़कर पश्चिम के मकानात लेते हुये मोड़ी मस्जिद कुन्ट से उत्तर में होटल हयात से उत्तर में चलकर पश्चिम के मकानात लेते हुये नाथू गवारीया के मकान से बदु सिसोदिया की कम्पनी तक कम्पनी से पश्चिम में चलकर दक्षिण के मकानात लेते हुये हिन्दुस्तान मार्बल की कुन्ट से दक्षिण चलकर पूर्व के मकान लेते हुये हनुमान बन्जारा की कुन्ट से पश्चिम की ओर चलकर दक्षिण के मकानात लेते हुये घाटी चौराह तक। |
| 7 | 7 | बन्धीराम महाराज के मकान से पश्चिम में चलकर दक्षिण के मकानात हरिजन बस्ती सम्मिलित करते हुए धूल जी सोमपुरा की कुट से दक्षिण में चलते हुए पूर्व की आबादी लेते हुए धीसाराम जी बरवड के मकान से पूर्व मुड़कर उत्तर की आबादी लेते हुए किशनाराम कुम्हार के मकान तक किशनाराम कुमार के मकान के सामने से पश्चिम में मुड़कर दक्षिण के मकानात लेते समस्त गलिया सम्मिलित करते हुए बरवड ज्व की कुट से दक्षिण में मुड़कर झालरा रोड चलकर दोनों साईडों की आबादी लेते हुए मैन बाईपास रोड रफीक कलाल के मकान की कुट से पश्चिम की तरफ चलकर उत्तर के मकानात लेते हुए होटल हयात के सामने अनथ गैसावत के गोदाम की कुट से उत्तर चलकर पूर्व के मकानात सम्मिलित करते हुए हनिफ खिलावरिया के बाडे से उत्तर की तरफ चलकर पूर्व के मकानात लेते हुए बन्धी राम महाराज के मकान तक। |
| 8 | 8 | बाईपास रेल्वे फाटके से पश्चिम को चलकर दक्षिण के मकानात शिव कॉलोनी पी.डब्ल्यू.डी क्वाटर होते हुये बरकत कॉलोनी मकानों को लेते बरकत बैलीम की कुट से पश्चिम में व दलपत निवास को सम्मिलित करते हुये हकीम साहब की गुवाड़ी को लेते हुये हकीम साहब के कोने से दक्षिण में मुड़कर पश्चिम में चलकर दक्षिण के मकानात लेते हुये श्रीराम कॉलोनी बस्ती लेते हनीफ जी हींडा वाले के मकान तक वापस पूर्व की तरफ चलकर दोनों तरफ की मकानात लेते संगमरमर होटल होते हुये दक्षिण की तरफ चलकर बाईपास आकर झालरा तालाब के पास खसरा नम्बर 738, 783, 771 को सम्मिलित करते गुरुद्वारे के पीछे बिजली बोर्ड की सम्मिलित करते बाईपास रेल्वे फाटक तक। |
| 9 | 9 | मकराना मार्बल चार खम्भे से पूर्व में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए हीरा खॉ कलाल के मकान की कुन्ट तक मकान से दक्षिण में चलकर दोनों साईड के मकान लेते हुए सत्तार मुशी के मकान तक मानधनिया कि कटिंग के कोने से पूर्व में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए नाने खॉ कामखानी के मकान से दक्षिण चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए गफार कुरैशी के मकान तक मकान से पश्चिम में चलकर उत्तर के मकान लेते हुए हरिजन बस्ती चौराहा से लाली हाजी की कम्पनी तक कम्पनी से उत्तर में चलकर पूर्व मकान लेते हुए चार खम्भा मकराना मार्बल तक। |
| 10 | 10 | गयूर के मकान से पश्चिम में रेल्वे लाईन पश्चिम में उत्तर के मकान लेते हुए राठोड़ों को गुवाड़ी को सम्मिलित करते हुए रेल्वे की दिवार के पास चलकर दिवार के मार्ग रास्ते पर आकर दोनों साईड की बस्ती गौड़ों बस्ती, खिलावरिया, गहलोत चौधरी बस्ती को लेते मेहन्दी हसन के मकान की कुन्ट से दक्षिण में चलकर भोलू जी मकान लेते मस्जिद रोड पर आकर पूर्व मकान लेते चौहान के मकान की कुन्ट से पूर्व में चलकर उत्तर मकान लेते हुए दौला कुआ मस्जिद से पूर्व चलकर गयूर के मकान तक। |

| | | |
|----|----|--|
| 11 | 11 | बल्लभ जी चौखडा के नोरे से पश्चिम में चलकर दक्षिण के मकानात लेते हुए धीसा माली हीराराम बलाई डॉक्टर नेमीचन्द जेठमल बरवड की गुवाडी मेहता हाउस गोपी व्यास के मकानात लेते हुए जय शिव चौक से पश्चिम में चलकर दोनों साईड के मकानात लेते हुए जय चौक से पश्चिम में चलकर स्टेशन चौक लेते हुए पोस्ट ऑफिस सम्मिलित करते हुए रेल्वे गली में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए रेल्वे फाटक से पूर्व में मुड़कर रेल्वे लाईन होते हुए उत्तर के मकान लेते हुए नगरपालिका कार्यालय तक नगर पालिका कार्यालय से उत्तर में चलकर दाधीच मेडीकल से पूर्व में चलकर उत्तर के मकानात लेते रामस्वरूप जांगिड की मकान की कूट उत्तर तरफ चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए नवरत्न मालपानी मकान दक्षिण कूट से माली पानी गली में चलकर उत्तर के मकानात लेते हुए श्री बल्ब चौखडा के मकान तक पश्चिम के मकान लेते हुए हीरा लाल जोशी की गली में मुड़कर दोनों साईड के मकानात लेते हुए नवरत्न मालपानी के मकान तक। |
| 12 | 12 | गर्ल्स स्कूल से पूर्व में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए शेखर बाबू के मकान पर होते हुये पूर्व में चलकर दक्षिण के मकान मेघवाल बस्ती लेते हुए शेख रमजान जी रान्डड का मकान लेते हुए दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए रंगोली गेस्ट हाउस की गली को दोनों साईड लेते हुए पुनः बाईपास रोड पर आकर दक्षिण पर चलकर पश्चिम मकान लेते हुए पुराने रेल्वे क्रॉसिंग पर आकर पूर्व में चलकर गेहलोत कॉलोनी बस्ती को लेकर पुनः रेल्वे क्रॉसिंग पर आकर उत्तर में चलकर पूर्व के मकान माली बस्ती रान्डड भवन बस्ती लेते हुए पंचायत समिति क्वाटर को लेते हुए हॉस्पीटल के पीछे बस्ती लेते हुए गर्ल्स स्कूल तक इसके मध्य का सम्पूर्ण भाग। |
| 13 | 13 | डॉ. सुगन की दुकानों से दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए शम्सुदीन के मकान से पश्चिम चलकर उत्तर के मकान लेते हुए एस.एम वकील मकान तक से बाईपास रोड दक्षिण चलकर पश्चिम के मकानात लेते हुए हारून सिसोदिया की कंटिंग तक से उत्तर में चलकर पूर्व के मकान लेते हुए केला गोदाम तक गोदाम से गर्ल्स स्कूल रोड पर पश्चिम में चलकर उत्तर के मकान लेते हुए दांतों के हॉस्पीटल तक हॉस्पीटल से उत्तर में मुड़कर पश्चिम मकान लेते हुए सुरजनारायण पार्षद के मकान से पश्चिम चलकर उत्तर के मकान लेते हुए सुनारी के मकान गली में चलकर पूर्व के मकान लेते हुए नाई की दुकान तक दुकान से पूर्व में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए बाईपास तिराये से डॉ. सुगन तक इसके मध्य तक सम्पूर्ण भाग। |
| 14 | 14 | अली चेम्बर से पूर्व में चलते हुये दक्षिण के मकानात लेते हुये करीम जी बिजली वाले के मकान तक मकान से दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकानात लेते हुये मोहन जी बुल्डक के खेत तक से दोनों साईड की आबादी लेते हुए अपेक्ष स कॉलेज से उत्तर में चलकर रास्ता में आकर दोनों साईड के मकान लेते हुए रास्ते पर आकर उत्तर में चलकर पूर्व के मकानात लेते हुये बाईपास गोदाम से अली चेम्बर तक इसके मध्य का सम्पूर्ण भाग। |
| 15 | 15 | याकूब तेली की दुकान से पूर्व में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए चौधरी पेट्रोल पम्प तक पेट्रोल पम्प से दक्षिण में चलकर पूर्व के मकान लेते हुए रज्जाक खाटू बस्ती लेते हुये खाटू बस्ती से पूर्व में चलकर परिषद की सीमा लेते हुये लियाकत लखारा मकान से पश्चिम में चलकर दोनों साईडों के मकानात लेते हुये हाजी काका के मकान पर मकान से पश्चिम में चलकर करीम बिजली वाले के मकान से पश्चिम में चलकर उत्तर के मकानात लेते |

| | | |
|----|----|--|
| | | हुये बुल जी गौड़, अयूब युसुफ के मकान से उत्तर में चलकर पूर्व के मकान लेते हुए मदीना मस्जिद लेते हुए याकूब तेली की दुकान तक इसके मध्य का सम्पूर्ण भाग। |
| 16 | 16 | होटल मोती महल से पूर्व में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए सुभाषनगर कॉलोनी को सम्मिलित लेते हुए जयचन्द जैन की दुकान से पश्चिम के मकान लेते हुए यहना मास्टर के मकान से ननू के बाड़े की बस्ती को सम्मिलित करते हुए नूर हसन बडिया के मकान से मकान से पश्चिम चलकर दोनों साईड के मकान लेते हुए उत्तर चलकर हाजी नूरहसन के दोनों साईड के मकान लेते हुए पश्चिम तरफ चलते इसाक जी खाटू से उत्तर तरफ चलकर होटल मोती महल तक। |
| 17 | 17 | हसन सिसोदिया के मकान से पूर्व में चलकर उत्तर के मकान लेते हनीफ खिलावरिया के मकान कूट से उत्तर में चलकर दोनों साईड के मकान लेते हुए पूर्व विधायक जाकिर हुसैन के लेते हुए नवाब जी बाड़े तक बाड़े से पूर्व में चलकर दक्षिण मकान लेते हुए चमनपुरा मस्जिद के गली में मुडकर दक्षिण के मकान लेते हुए फारूक सिसोदिया की कूट पर आकर दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए राम रहिम कॉम्प्लेक्स पर आकर पश्चिम में चलकर उत्तर के मकान लेते हुए हसन जी सिसोदिया के मकान तक इसके मध्य का सम्पूर्ण भाग। |
| 18 | 18 | वार्ड नं 18 में गुलाम नबी चौहान की दुकान से पूर्व में चलकर उत्तर के मकानात लेते हुए भूरा थानेदार की गली अमर होटल के सामने वाली गली की बस्ती लेते हुए याकत चौहान के मकान तक मकान से उत्तर में चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए समद चौधरी के मकान तक मकान पश्चिम में चलकर दक्षिण के मकान लेते अमीर मो की गली लेते अनवर फिरकिया के मकान तक जन्नत हाउसके सामने वाली गली दक्षिण में चलकर दोनों मकान लेते हुए छेलजी चौहान के मकान तक मकान गुलाम नबी चौहान तक। |
| 19 | 19 | वार्ड नं 19 में साबुदीन कुरैशी के मकान से पूर्व में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए समद जी भाटी के मकान तक मकान से दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए नूर जी रान्डड के मकान से पश्चिम चलकर उत्तर के मकान लेते हुए चमनपुरा मस्जिद को सम्मिलित करते हुए मस्जिद से पश्चिम में चलकर उत्तर के मकान लेते फारूक खत्री के मकान तक मकान से पश्चिम में चलकर उत्तर के मकान लेते हुए अनवर गजधर तक मकान से पश्चिम में चलकर उत्तर के मकान लेते हुए चौहान के दुकानों तक दुकान से उत्तर में चलकर पश्चिम के मकान मीनारा मस्जिद की बस्ती लेते हुए साबुदीन कुरैशी के मकान तक। |
| 20 | 20 | अब्दुल जब्बार चौहान के मकान से हारून चौहान की दुकान से पश्चिम में चलकर उत्तर के मकान लेते हुये जमाल खाटू वाली गली लेते हुये बुन्दू चौहान के मकान से जब्बार चौहान की दुकान तक दुकान से उत्तर में चलकर पूर्व के मकान लेते हुये सदीक सिसोदिया मकान तक मकान की कूट से पूर्व में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुये बिलाल भाटी के मकान तक। गुलाम मुस्तफा के मकान से पूर्व में चलकर इस्माईल बांनडया दोनों साईड के मकानात तक दक्षिण में चलकर चांद जी का कुआ पर आकर जब्बार जी चौहान के मकान तक। |
| 21 | 21 | गुलाम नबी चौहान के मकान से दक्षिण में चलकर बिल्लू रान्डड की बस्ती लेते हुए मुश्ताक जी की दुकान को सम्मिलित करते हुये पश्चिम में मुडकर कुचामनियों गुवाड़ी लेते हुए जमील पटवारी के मकान तक जमील पटवारी के मकान से उत्तर की तरफ करीम चौहान के मकान में पूर्व चलकर दक्षिण के |

| | | |
|----|----|---|
| | | मकान गौड़ाबास मस्जिद लेते हुए मस्जिद से पूर्व में चलकर गौड़ों की गुवाड़ी लेते हुए मुस्तफा जी गौड़ के मकान की कुन्ट तक कुन्ट से दक्षिण में चलकर जुम्मा सिसोदिया की गुवाड़ी सम्मिलित करते हुए दक्षिण में चलकर चौहानों की गुवाड़ी लेते हुये गुलाम जी चौहान के मकान तक। |
| 22 | 22 | नूरहसन चौहान के मकान से पूर्व में चलकर गौड़ों की गुवाड़ी लेते हुए मस्जिद वाली सामने वाली लेते हुये रहमानिया अरबीया मदरसा लेते हुये गुलाम मुस्तफा सिसोदिया का नया मकान लेते हुये चौहान किरणा की दुकान की कुन्ट से पश्चिम में चलकर खत्रीयों व गहलोत की गुवाड़ी लेते हुये पूर्व में चलकर शौकत जी गहलोत के मकान से उत्तर में चलकर बूल जी गौड़ के गुवाड़ी लेते हुए वापस दक्षिण के तरफ अकरम कॉट्टिंग आकर जिलानी बेहलीम मकान लेते हुए साणों की पोल में धूस कर पश्चिम में चलकर खत्रीयों की गुवाड़ी लेते हुए सार्वजनिक नल तक की बस्ती को सम्मिलित करते हुए। |
| 23 | 23 | जलालुदीन बेहलीम की दुकान से उत्तर में चलकर पूर्व के मकान लेते हुए कचरा स्टेण्ड की कुन्ट तक कूट से पूर्व में चलकर दोनों साईड के मकान लेते हुए नाले के रास्ते से पूर्व में चलकर उत्तर के मकान लेते हुए डॉ. नबाब के मकान की कूट तक कूट से दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए मीनारा चौक पर आकर पूर्व में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए लाली हाजी के मकान लेते हुये समद चौहान के मकान की कूट तक कूट से दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकानात लेते हुये मुन्ना सिसोदिया के मकान की कूट तक कूट से पश्चिम में चलकर उत्तर के मकानात लेते हुये गुलाम बोस के मकान से कसाई बस्ती सम्मिलित करते हुए पश्चिम में चलकर उत्तर के मकान लेते हुए जलालुदीन बेहलीम के मकान तक इसके मध्य का सम्पूर्ण भाग। |
| 24 | 24 | खारी बावड़ी की कूट से पूर्व में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए महेश बाल विद्यालय की बस्ती को सम्मिलित करते हुए गौशाला की कूट तक कूट से पलाड़ा रोड पर पूर्व में चलकर उत्तर के मकान लेते हुए जूसरी रोड पर सत्तार खत्री की कूट तक कूट से दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए दक्षिण की ओर चलते हुए शाफी गहलोत के बाड़े तक बाड़े की कूट से पश्चिम की ओर मुड़कर उत्तर की ओर अहमद जी रान्दड के मकान लेते हुए शकरुदीन कुरेशी के मकान की कूट तक कूट से गली में उत्तर की ओर चलकर डॉ. नबाब के मकान से पश्चिम में चलकर धोबियों के शमशान को सम्मिलित करते हुए खारी बावड़ी के पीछे आकर पश्चिम में चलकर खारी बावड़ी तक। |
| 25 | 25 | पानी की टंकी से पूर्व चलकर गंगाराम तानाण के मकान से चौरहा तक पूर्व चलकर गली नं 01 व गली ने 02 की बस्ती को सम्मिलित लेते नगर परिषद सीमा तक मदन मेघवाल के बाड़े की कूट से दोनों साइडों के मकान लेते हुए शकरुदीन कुरेशी की कूट उत्तर में चलकर दोनों साइडों के मकान लेते हुए गंगाराम तानाण के मकान तक। |
| 26 | 26 | अजीज शाह के मकान से दक्षिण में चलते पूर्व के मकान लेते हुए बन्शी के मकान से दक्षिण चलते हुए दोनों साइडों के मकान लेते हुए प्रभुराम मेघवाल मकान से पूर्व चलकर उत्तर के मकान लेते हुए उस्मानपुरा की दोनों साइडों की मकान सम्मिलित करते हुए उस्मानपुरा से पश्चिम में चलकर अरबीया के मकान उत्तर के मकान लेते हुए नारायण जी बाबुजी के मकान उत्तर में चलकर दोनों साइडों के मकान लेते हुए कमल घार के पास यासीन कुरेशी से उत्तर की ओर चलकर निजमू खत्री होते हुये हरिजन बस्ती तक अजीज शाह के मकान तक इसके मध्य का सम्पूर्ण भाग। |

| | | |
|----|----|---|
| 27 | 27 | सगीर के मकान से पूर्व चलकर लगनशाह कॉलोनी को सम्मिलित करते हुए पानी तिरहा की गली लेते हुए पश्चिम चलकर उत्तर के मकान लेते हुए जब्बार जी गैसावत की गली से होते हुए बर्फ फैक्ट्री के पास सलीम सिसोदिया के मकान से जाकिर मिस्त्री के मकान तक एंव पश्चिम के तमाम मकानात लेते हुए रमजान के घर से शहादत के मकान तक हाजी मुख्तार का प्लांट से सिटीजन पब्लिक स्कूल होते हुए रहीम रान्डड होते हुये सोनू हॉस्पीटल तक सगीर के मकान तक इसके मध्य का सम्पूर्ण भाग। |
| 28 | 28 | पीर की दरगाह गली नं 01 बस्ती लेते हुये गली नं 02 के पूर्व में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए उमर वकील मकान तक वापस गली में आकर पीर की दरगाह रोड पर दक्षिण में चलकर कूट की गली दोनों साईड के मकान लेते हुये गफार खत्री से पश्चिम में चलकर हताई मस्जिद उत्तर में मकान लेते हुये चौधरी गुवाड़ी हारून जाकिर वागरीया के मकान में आकर गजधरों की सम्पूर्ण गली लेते हुये करीम शाह के मकान पर आकर गनी टोलिया के सम्पूर्ण वाली लेते हुये। |
| 29 | 29 | घीसा खत्री के मकान की कूट से पूर्व की ओर चलकर दक्षिण के मकान लेते हुये हनीफ जी सिसोदिया के मकान से उत्तर में मुड़कर पूर्व के मकान लेते हुये हकीम शाह के मकान से पूर्व में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुये गफार के मकान के पास से दक्षिण में चलकर डॉ. गुलजार की कूट से दक्षिण में ओर मुड़कर रास्ते के दोनों ओर के मकानों को लेते हुये मिठूदाई के मकान से दक्षिण की ओर मुड़कर खत्री के मकान हमीद सिसोदिया के मकान तक गली नं 02 में चलकर पूर्व में चलकर उत्तर के मकान लेते हुये मिठूदाई की सम्पूर्ण बस्ती। |
| 30 | 30 | हारून वकील के मकान से पूर्व में चलकर उत्तर के मकान लेते हुये मकराना की दुकानों तक दुकानों से उत्तर की ओर दरगाह रोड पर चलकर पश्चिम के मकान लेते हुये पीर की दरगाह को सम्मिलित करते हुये नसरू जी टोलिया के मकान तक नसरू के मकान से उत्तर के मकान लेते हुये गफार रान्डड के मकान से पूर्व में चलकर उत्तर के मकान लेते हुये उमर जी चौधरी के मकान से उत्तर की ओर मुड़कर पश्चिम के मकान लेते हुये मैला चौक होते हुये रजाक रान्डड के मकान से उत्तर की ओर चलकर अब्दुल जब्बार रान्डड के बाड़े की कूट से पश्चिम की ओर चलकर दक्षिण के मकान लेते होटू सिसोदिया के मकान तक। |
| 31 | 31 | सत्तार तेली के मकान से उत्तर में चलकर की बस्ती को सम्मिलित करते दोनों साईड के मकान लेते हुये कायता चौक की सम्पूर्ण बस्ती को सम्मिलित करते हुए चलकर शाह व सिन्धी की गली में चलकर दोनों साईड के मकान लेते हुए कालू चौधरी के मकान तक का सम्पूर्ण कायता बस्ती का भाग। |
| 32 | 32 | नारायण झंवर के चक्की से पूर्व में दोनों साईड के मकान लेते हुए गुवाड़ चौक पर आकर भोपड़ो का जाव के गली में दोनों साईड के मकान लेते हुए पुनः गुवाड़ चौक पर आकर गुलाम मुस्तफा जी सिसोदिया पूर्व चैयरमैन की बस्ती गहलोत की बस्ती लेते हुए गुलाम मुस्तफा के मकान से पूर्व में चलकर दक्षिण के मकान रान्डडों, खत्रीयों की बस्ती लेते जाबीर जी गैसावत के मकान से रेखांकित दक्षिण में चलकर गफार अंसारी के मकान लेते हुए कायता मस्जिद के कोने से सिसोदिया बस्ती लेते हुए पश्चिम चलकर हाजी मुख्तार बेहलीम की गली दोनों साईड के मकान लेते हुए के.जी.एन प्रेस तक प्रेस पर आकर उत्तर में गली चलकर पूर्व के मकान समनीघर बस्ती, गहलोत बस्ती लेते हुए नारायण झंवर तक। |

| | | |
|----|----|---|
| | | |
| 33 | 33 | आशाराम के मकान से उत्तर की ओर चलकर चारभुजा रोड पर पूर्व के मकान लेते हुए सोहन हलवाई की तक दुकान से पूर्व की ओर मुड़कर दोनों साईड के मकान लेते हुए उजीण सिंह के गढ़ के बस्ती खण्डेल वालों की गली की बस्ती लेते हुये कौशल किशोर की मकान लेते हुए पश्चिम में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुये तेलियों की मस्जिद की दोनों साईड की बस्ती सम्मिलित करते हुये मदन वकील के मकान से शंकर तेली के मकान से सामने सुनार की दुकान से दक्षिण की तरफ मुड़कर चारभुजा मन्दिर की बस्ती लेते हुये पश्चिम के मकान लेते हुये पाबूजी के चबूतरे के पास होते हुये सुगन के मकान लेते हुये आशाराम के मकान तक। |
| 34 | 34 | पाबूजी के चबूतरे से पश्चिम की तरफ चलकर बाहर भाई की कोठरी रामलाल ब्राह्मण की बस्ती लेते हुये नाया गारमेन्ट की दुकान लेते हुए उत्तर में मोती खोंजी के मकान लेते हुये मकान से पश्चिम में आकर दोनों साईड के मकान लेते हुये बद्री के मकान से सदर बाजार रोड की तरफ चलकर पूर्व की मकान लेते हुए बाजार मस्जिद के पास वाली गली से नेमीचन्द दर्जी की दुकान से पूर्व की ओर चलकर दोनों साईडों के मकान लेते हुए गुलाबचन्द मोहर की दुकान तक व मोहर की दुकान से मांगीलाल की दुकान से पश्चिम की ओर चलकर दक्षिण के मकान लेते हुये रान्दड बस्ती मानधनिया बस्ती, हाजी बनभुजिया से विजय पेलेस की बस्ती लेते हुये विजय पेलेस के चौक से दक्षिण में ब्राह्मणीया टीबा पर पूर्व के मकानात लेते हुए हमीद टेलर की मकान की कूट से पूर्व की ओर मुड़कर उत्तर के मकानात खाती बस्ती लेते हुये हनुमान सिंह जी के मकान की कूट से पाबूजी के चबूतरे तक। |
| 35 | 35 | मोती काम्पलेक्स से उत्तर में चलकर पश्चिम के मकानात लेते हुए कुचामनिया की कूट से नीम फाड बालाजी तक बालाजी से पश्चिम की आरे मुड़कर दक्षिण के मकान बाहमणों की बस्ती टांकों की बस्ती लेते हुए फयाज टाक की कूट से दक्षिण की ओर मुड़कर पूर्व आबादी लेते हुए शेक्ष जी भाटी से पूर्व में चलते हुए गोरी कॉम्पलेक्स से दक्षिण चलकर पूर्व के मकान लेते हुए रोशन तेली के मकान की कूट तक पश्चिम में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए शाबु जी मकान की कूट तक कूट से दक्षिण में चलकर चौखड़ा की दुकान तक दुकान से पूर्व चलकर उत्तर के मकान लेते चौद जी बेहलीम के मकान तक। |
| 36 | 36 | कलन्दरी मस्जिद से पूर्व की ओर चलकर दक्षिण के मकानात लेते हुए सुलेमान बाण्डया के मकान से दक्षिण की तरफ मुड़कर पश्चिम की ओर बाण्डया की बस्ती लेते हुये हनीफ बाण्डया की कूट से पश्चिम में चलकर उत्तर के मकान लेते हुये गुलाम रसूल सिसोदिया के मकान से दक्षिण की तरफ मुड़कर पश्चिम की आबादी नूर बाबू की गली, रान्दडो की आबादी सम्मिलित करते हुये मैन रोड पर आकर दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकानात लेते हुये स्टेशन चौक पर अनवर रान्दड की दुकान की कूट तक व कूट से पश्चिम की ओर मुड़कर मुस्लिम मुसाफिर खाना को सम्मिलित करते हुये हकीम राठौड़ की कूट तक व कूट से उत्तर की ओर चलकर पूर्व की आबादी लेते हुये कलन्दरी मस्जिद तक। |
| 37 | 37 | शेरे पंजाब होटल पर कयूम के मकान से उत्तर की तरफ मुड़कर पश्चिम के मकानात लेते हुये रहमान भाटी के मकान तक व मकान से पश्चिम तरफ मुड़कर दक्षिण के मकानात लेते हुये जवान कलाल के मकान तक जानी कलाल मकान से रेलवे गली में पूर्व और चलकर उत्तर के मकानात लेते हुये शेरे पंजाब कयूम के मकान तक। |

| | | |
|----|----|---|
| | | फरीद भाटी के मकान की कुन्ट से दक्षिण की ओर चलकर पूर्व के मकान लेते हुए सलीम उस्ता की कुन्ट से पूर्व में चलकर उत्तर के मकान लेते अ0 अजीज सिसोदिया के मकान से पूर्व में चलकर उत्तर के मकान लेते हुए गंगासिंह जी के दुकान तक दुकानों से उत्तर में चलकर सदर बाजार की ओर चलकर पश्चिम की आबादी लेते हुए भैरू नाई की दुकान की कुन्ट से पश्चिम की ओर चलकर डॉ. बक्सीलाई के मकान की कुन्ट से दक्षिण की आबादी लेते हुए शब्बीर गैसावत के मकान से उत्तर में चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए टीबा मस्जिद की ओर चलते हुए दक्षिण की आबादी सम्मिलित करते हुए फरीद भाटी के मकान की कुन्ट इसके मध्य का सम्पूर्ण भाग। |
| 38 | 38 | अत्ताउल्ला भाटी के मकान से पश्चिम में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए फेझू के मकान की कूट से दक्षिण की ओर चलकर पूर्व के मकान लेते हुये खलील जी सिसोदिया के मकान की कूट से शरीफ मास्टर की गली की कूट तक व कूट से पूर्व की ओर चलते हुये उत्तर के मकान लेते हुए फयामुदीन के मकान की कूट से पूर्व की ओर चलकर बाजार मस्जिद को सम्मिलित करते हुये महेन्द्र जैन की मकान की कूट से उत्तर पूर्व की ओर चलकर गली में चौधरियों की गुवाड़ी को सम्मिलित करते हुये जब्बार तैली के मकान की कूट से पश्चिम में चलकर रास्ते की दोनों साईड की आबादी सम्मिलित करते हुये गफार भाटी के मकान की कूट से उत्तर की ओर बैलीमों की गली में दोनों साईड के मकान लेते हुये धूत्तों के मकान लेते हुये छिप्पा की कूट तक व कूट से दक्षिण में चलते हुये पूर्व के मकानात लेते हुये मदिना चौक पर बिसाईति बस्ती व्यापारी बस्ती तैली के मकान बैहलीमों की गुवाड़ी सम्मिलित करते हुये अत्ताउल्ला के मकान तक। |
| 39 | 39 | रहमतुल्लाह पनवाड़ी की दुकान की कुन्ट से पश्चिम में चलकर दोनों साईडों के मकान लेते हुए मनवर गैसावत के मकान से उत्तर में चलकर पूर्व के मकान लेते हुए गफार चौधरी के मकान की कूट से उत्तर में चलकर शेख नबी का मकान लेते हुए पूर्व की बस्ती लेते हुए हसन नागौरी के मकान तक नागौरी के मकान से पूर्व में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए भागचन्द खाती के मकान से दोनों साईड के मकान लेते हुए चन्द्रा जी गुर्जर की दुकान लेते हुए कासम नागौरी की दुकान से रेगर बस्ती लेते हुए रेगर बस्ती से पश्चिम में चलकर हरिशंकर खाती की दुकान से दोनों साईड के मकान लेते हुए न्याजू बैहलीम की गली में चलकर उत्तर के मकान लेते हुए अल्लाहनूर की दुकान की कूट से दक्षिण में चलकर साबूदीन बन्दूकिया की दुकान पर आकर दक्षिण में चलकर पश्चिम की आबादी भाटी बस्ती लेते हुए रहमतुल्लाह पनवाड़ी की दुकान तक। |
| 40 | 40 | कासम नागौर की दुकान से उत्तर में चलकर दोनों साईडों के मकान लेते हुए खलील जी बागरीया तक मकान से पूर्व में चलकर छोटू जी गैसावत तक पश्चिम में चलकर चौराये पर आकर उत्तर के मकानात लेते हुए बंशी बन्जारा के मकान से उत्तर में चलकर पूर्व की बस्ती लेते हुये शरीफ वकील के मकान से पूर्व में चलकर यूसूफ गहलोत का बाड़ा लेते हुये उत्तर में चलकर पश्चिम के मकान लेते हुये हमीद टांक के मकान से गणपत मिर्ची वाले के मकान से सावरिया बिजली वाले के मकान तक मकान से अक्सा मस्जिद से दक्षिण में चलकर पूर्व के मकान लेते हुए छतरियों के पास आकर मजीद गैसावत के मकान से दक्षिण में चलकर दोनों साईडों के मकान लेते हुए कालू अग्रवाल जब्बार गहलोत के मकान की कूट से उत्तर में चलकर कासम जी नागौरी की दुकान तक। |
| 41 | 41 | |

| | | |
|----|----|--|
| | | मेला चौक से उमर सिसोदिया की दुकान की कूंट से उत्तर की ओर चलकर पश्चिम के मकानात लेते हुए छोटू शाह से उत्तर की ओर पश्चिम के मकानात लेते हुए दक्षिण के मकानात लेते हुए टांको की जाव की आबादी से दक्षिण में चलकर पूर्व की आबादी लेते हुए मानधनिया छतरियों की कूंट से पूर्व की ओर मुड़कर अन्दर की ओर उत्तर के मकानात लेते हुए खलील बेहलीम की कूंट से दक्षिण की ओर चलकर पूर्व के मकानात लेते हुए लगनशाह रोड पर मस्जिद की कूंट से पूर्व की ओर चलकर उत्तर पूर्व के मकानात लेते हुए मेला चौक में उमर सिसोदिया के मकान तक इसके मध्य का सम्पूर्ण भाग। |
| 42 | 42 | अकलियत जमात खाने से उत्तर में चलकर दोनों साईडों की बस्ती लेते हुए मान सिंह कट्टर से पश्चिम में चलकर बड़ के पास आकर गली में चलकर के मकान की गली लेते हुए वापड बड़ के पास आकर दक्षिण में चलकर पूर्व के मकान लेते हुये रमजान तेली का मकान लेते हुए अकलियत जमात खाने तक। |
| 43 | 43 | रामकरण बावरी के मकान से पूर्व में चलकर सुमेर सिंह के मकान की कूंट में दोनों साईड के मकान लेते हुये पश्चिम में चलकर अर्जुन राम मंगनाराम की गली लेते हुये ठाकूर साहब की आखली तक आखली से उत्तर में चलकर दक्षिण के मान लेते हुये किशन धोबी के मकान तक समस्त गलिया लेते हुए गनी जी का बाड़ा की कूंट से पूर्व में चलकर कमरुदीन व हाजी कलाल का जाव में भाटो की बस्ती लेते हुये स्कून नं 01 में दोनों साईड की गलीया लेते हुये जगदीश खटीक की से दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकान लेते हुये गणपत मिर्ची वाले के मकान से पश्चिम में चलकर दोनों साईड के मकान लेते हुये मूल सिंह शेखावत के मकान से पश्चिम में चलकर रामकरण बावरी के मकान तक। |
| 44 | 44 | उस्मान तेली के मकान से उत्तर में चलकर पश्चिम की समस्त गलिया व मकान लेते हुए सुगन चन्द आचार्य के मकान से पश्चिम चलकर दोनों साईडों के मकान लेते हुए जुम्मा छोटी वाले से दक्षिण चलकर पूर्व के मकान लेते हुए सगीर अहमद की खान से पूर्व चलकर पुराना दारूलमूम तक दारूलमूम से पूर्व चलकर उत्तर के मकान लेते उस्मान तेली के मकान तक। |
| 45 | 45 | सप्राट स्कूल की कुन्ट से उत्तर चलकर पश्चिम बावरी बस्ती को सम्मालित लेते हुए फूल जी बावरी के मकान उत्तर चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए गुलशन कॉलोनी को सम्मालित करते हुए करीम मिस्त्री मकान से पश्चिम में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए जाकीर कुरैशी के मकान से दक्षिण चलकर पूर्व के मकान लेते हुए टॉवर की बस्ती सम्मालित करते हुए सरदार बन्जारा के मकान लेते पश्चिम चलकर रतन डॉ मकान दोनों साईडों के मकान लेते हुए गुलाम नबी कुचामनियों की बस्ती को सम्मालित करते जतन सिंह के जाव से सप्राट स्कूल। |
| 46 | 46 | कामराज तेली के मकान से उत्तर में चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए कादर भाटी के मकान से गली में अन्दर चलकर नूर जी तेली शेख फूला का मकान पर आकर दक्षिण में चलकर सगीर बेहलीम के मकान से पश्चिम में चलकर दोनों साईडों के मकान लेते हुए गुलजारपुरा मस्जिद की बस्ती लेते हुये गुलजारपुरा मस्जिद के उत्तर चलकर लियाकत गैसावत का मकान दोनों साईड के मकान लेते हुये गली से दक्षिण में चलकर पूर्व के मकान लेते हुए शौकत शाह के मकान लेते हुए उत्तर में चलकर पूर्व के मकानात लेते हुए यासीन कुरैशी के मकान की कूंट से दक्षिण में चलकर पूर्व के मकानात लेते हुए जोधपुर कलीनिक तक कलीनिक से पूर्व में चलकर उत्तर के मकानात लेते हुए कामराज तेली के मकान तक इसके मध्य का सम्पूर्ण भाग। |
| 47 | 47 | |

| | | |
|----|----|--|
| 48 | 48 | जमाल भट्टे वाले के मकान से पश्चिम में चलकर उस्मान टॉवर के दोनों साईड के मकान लेते रफीक गैसावत के मकान से पश्चिम में चलकर दोनों साईड के मकान लेते हुये दक्षिण के मकान लाल जी का बाड़ा की बस्ती लेते हुये इस्माईल बाबा के मकान से पूर्व चलकर दातार कॉलोनी को सम्मिलित करते हुए दक्षिण में चलकर कादर खाटू वाले के मकान से इकबालपुरा की बस्ती सम्पूर्ण सम्मिलित करते हुये सलीम दरेश के मकान से दक्षिण गली में आकर इकबाल की रान्डड का मकान लेते हुये जमाल भट्टे तक। |
| 49 | 49 | सत्तार समनीघर के मकान से उत्तर में गुलाबपुरा की गली में चलकर पूर्व के मकान लेते हुए अब्दुल खालिक अंसारी के मकान की गली उत्तर में चलकर पूर्व के मकान लेते हुए भैरू माली के कुए से उत्तर में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए सलाम हाजी के मकान की कूट तक कूट से दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए हाजी भिस्ती के मकान तक मकान से बन्धया बैरा से दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकानात लेते हुए हारून बिसायती की गली को सम्मिलित करते हुए खटीकों की गली को सम्मिलित करते हुए हाजी कलाल के मकान तक मकान से दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकानात लेते हुए आलम जी के मकान तक मकान से चलकर पश्चिम में चलकर उत्तर के मकानात लेते हुए सत्तार समनीघर तक। |
| 50 | 50 | उस्मान जी गैसावत के बाडे से पश्चिम में चलकर उत्तर के मकानात लेते हुए शहादत टोलिया के मकान की कुट से मुजीब भाटी के मकान से दोनों साईड के मकान लेते हुए एवर साईन स्कूल पर आकर फरीद भाटी के मकान से उत्तर में चलकर सराज भाटी के बाडे तक क्यूम मुल्ला के मकान से पूर्व में चलकर भूरन खाटू वाली गली लेते हुए शरीफ राठौड़ बस्ती के मकान लेते हुए हमीद नीमण के मकान से मुश्ताक जी का बाड़ा समशुदीन की बाडे की बस्ती लेते हुए पूर्व में चलकर हयात गजधर के मकान से दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकानात लेते हुए बोम्बई मार्बल वाली गली लेते हुए फरीद भाटी के मकान पर आकर मध्य बस्ती को सम्मिलित करते हुए हसनू की दुकान से पश्चिम में चलकर उत्तर के मकानात लेते हुए जमील गैसावत मकान की कूट से दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकानात लेते हुए उस्मान जी गैसावत के बाडे तक। |
| 51 | 51 | सोरगर के मकान से उत्तर में चलकर पश्चिम के मकानात अब्दुल खालिक के मकानात लेते हुए गुलाबपुरा बस्ती लेते हुए कुएं पर आकर पश्चिम में चलकर दक्षिण की बस्ती लेते हुए अशफाक बाबु के मकानात लेते हुए शंकूर बाबा के मकान से कब्रिस्तान की कूट से दक्षिण में चलकर पूर्व के मकान नूर जी भाटी, नसीर जी खाटू वाले बस्ती लेते हुए हनीफ जी गैसावत के मकान लेते हुए जुम्मा मास्टर के मकानात लेते हुए पूर्व में चलकर उत्तर के भाटीयों की गुवाड़ी, खत्रीयों की गुवाड़ी लेते हुए कालु जी की बस्ती लेकर गटटे पर आकर इमामुदीन लौहार मकान लेते हुए पूर्व में चलकर उत्तर के मकानात लेते हुए मुश्ताक बोडे वाला मकान लेते हुए सलजी की कूट तक कूट से उत्तर में चलकर पश्चिम के मकानात लेते हुए समशुदर्जी मकान से पश्चिम में चलकर दक्षिण के मकानात लेते हुए वजीरुदीन मकान तक मकान से सोरगर के मकान तक इसके मध्य का सम्पूर्ण भाग। |
| 52 | 52 | डॉ. आलम गैसावत के मकान से चलकर टोलियो की कुन्ट से पूर्व में चलकर दक्षिण के मकान बेलीम बस्ती, हाजी मेराज भाटी की बस्ती, रान्डड बस्ती |

| | | |
|----|----|--|
| | | लेते हुये इमामूदीन गहलोत के मकान तक मकान से दक्षिण में चलकर पश्चिम मकान लेते कमरुदीन भाटी की गुवाड़ी लेते हुए अताउल्लाह जी भाटी की दुकान तक दुकानों से पश्चिम में चलकर उत्तर के मकान लेते हुए गुवाड़ी लेते हुए सिसोदिया भाटी, बस्ती लेते हुए रमजान जी बेलीम गुवाड़ी लेते हुए शरीफ मास्टर जी की गुवाड़ी लेते अ रहमान गैसावत की गली में मुड़कर पूर्व के मकान लेते हुए कुंए पर आकर डॉ. आलम की बस्ती लेते हुए टोलियों की कुन्ट तक। |
| 53 | 53 | मुश्ताक मास्टर के मकान से पश्चिम में चलकर उत्तर के मकान लेते हुये छपरा मस्जिद पर पश्चिम चलकर उत्तर के मकान लेते हुए ऐ नत्थू हयात जी गैसावत के मकान की कुन्ट तक कुंए तक कुन्ट से उत्तर में चलकर पूर्व के मकान लेते हुये इकरा स्कूल की कुन्ट से पूर्व में चलकर उत्तर के मकान लेते हुए खुर्शीद मास्टर के मकान तक मकान से दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकान लेते शफी आलम के मकान लेते हुए पूर्व में चलकर दक्षिण के खत्रीयों कुचामनियों की बस्ती लेते हुए अनवर कुचामनियों की कुन्ट से दक्षिण में गली में चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए मुश्ताक मास्टर तक इसके मध्य का सम्पूर्ण क्षेत्र। |
| 54 | 54 | हसन सिसोदिया की दुकानों से पूर्व में चलकर उत्तर के मकान लेते हुये खत्रीयों की बस्ती, रान्दडों की बस्ती लेते हुये हाजी हनीफ जी रान्दड के मकान लेते हुये दीपक बंसल की कम्पनी की कुन्ट से पूर्व में चलकर उत्तर के मकान लेते हुये अनवर सिसोदिया के मकान की कुन्ट से उत्तर में चलकर दोनों साईड के मकान लेते हुए छोटू जी गैसावत के बेरा से पूर्व में चलकर दोनों साईड के मकान लेते हुए काजी कुंआ तक काजी कुंआ से दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए टांको व रान्दडों की गली सम्मलित करते हुए निसार खत्री के मकान से दक्षिण में चलकर रफीक समणीघर मकान से पश्चिम के मकानात लेते हुए जुल्फेकार के मकानात तक जानी कलाल के मकान से पश्चिम में चलकर दोनों साईडों की बस्ती लेते हुए उस्ताजी की गुवाड़ी लेते हुए गुवाड़ी से पश्चिम में चलकर दीपक बंसल की कम्पनी की कुन्ट तक। |
| 55 | 55 | झड़ बेरा की बस्ती से दक्षिण में चलकर कब्रस्तान की बस्ती लेते हुए पश्चिम में चलकर दक्षिण के मकान लेते हुए अलफू जी फैकट्री से पश्चिम में चलकर उत्तर के मकान लेते हुये सईद बाबा की मस्जिद तक मस्जिद से उत्तर में चलकर स्टेडियम होते हुये कालानाडा की बस्ती बावरी औड को सम्मलित लेते हुये फूलेरा शाह बाबा पीर दरगाह तक पूर्व से दरगाह से दक्षिण में चलकर पश्चिम के मकान लेते हुए झड़ बेरा तक। |

आयुक्त
नगर पालिका
मकराना

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

